

CLASS -5

SUBJECT-2<sup>ND</sup> LANGUAGE HINDI

CHAPTER- 4

अपनों का साथ

WORKSHEET

सार:-

• प्रस्तुत कहानी 'अपनों का साथ' में लेखक ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में परिवार, दोस्त, और भाई- बहन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे मनुष्य कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले अपने परिवार के बिना वह अधूरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को ऊँचा मान कर अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।

• किसी जंगल में बया पक्षियों के एक से एक सुंदर घोंसले लटक रहे थे। उसमें से एक घोंसला बहुत ही सुंदर और अलग था क्योंकि घोंसले के निचले भाग में एक झूला बना हुआ था।

• उस सुंदर घोंसले की मालकिन बया उस पर दिन भर झूलती रहती। जो भी वहाँ से गुजरता उस सुंदर घोंसले की तारीफ जरूर करता। इसलिए उस घोंसले की मालकिन को अपनी कारीगरी पर घमंड हो गया था।

• बया यह सोचने लगी कि उसका घोंसला बहुत ही सुंदर है लेकिन बाकी साधारण घोंसलों के सामने उसका घोंसला छिप गया है जिसकी वजह से किसी को भी उसकी खूबसूरती दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए बया ने सोचा कि वह यहाँ से चली जाएगी और कहीं और घोंसला बनाएगी। जिससे दूर से ही उसका घोंसला सबको दिखाई दे और सब उसकी तारीफ करें।

• बया ने अपने जाने की बात अपने सभी साथियों को बता दी। उसके साथियों ने उसे समझाया कि हमेशा अपनों के साथ रहना चाहिए। अपनों का साथ हर मुसीबत को आसान बना देता है। अपनों के साथ खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं परंतु बया ने किसी की बात नहीं सुनी और वहाँ से चली गई।

• बया ने दूर जाकर एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। वह सोचने लगी कि अब जो भी यहाँ आएगा बस उसके घोंसले को ही देखेगा और उसकी ही तारीफ करेगा। काफी समय बीत गया। परंतु बया के घोंसले को देखने वहाँ कोई नहीं आया। किसी ने उसके घोंसले की तारीफ नहीं की थी।

• बया उदास रहने लगी थी। उसे अपने साथियों की याद सताने लगी और अपने साथियों को याद करते- करते उसकी आँखों से आँसू छलक पड़े और आँसू की कुछ बूँदें नीचे पेड़ की डाल पर बैठी कोयल पर पड़ी। कोयल ने बया से उसके रोने का कारण पूछा और कहने लगी कि उसका घोंसला बहुत सुंदर है उसे तो अपनी कारीगरी पर खुश होना चाहिए। परंतु बया को कोयल

की बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बहुत दिनों से किसी ने उसके घोंसले की तारीफ नहीं की थी।

• कोयल ने बया को कहा कि उसका घोंसला बहुत सुंदर है किंतु यदि वह घोंसला अपने साथियों के बीच बनाती तो उसे और भी ज्यादा तारीफ मिलती है बया को अपनी गलती का अहसास हुआ और उसे समझ में आ गया था कि अपनों का साथ और उनका प्रोत्साहन पाकर अपनी कला को और भी निखारा जा सकता है। बया ने निश्चय किया कि वह अपने साथियों के साथ रहेगी और वही उनके बीच अपना घोंसला बनाएगी।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:-

- (a) निहारना-
- (b) डाली-
- (c) प्रोत्साहन-
- (d) प्रतिभा-
- (e) सराहना-
- (f) कारीगर-
- (g) सामान्य-
- (h) कारीगरी-

Q2. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए:-

- (a) गर्व –
- (b) प्रशंसा-
- (c) श्रेष्ठ-
- (d) वृक्ष-
- (e) अभिमान-

Q3. किसने किससे कहा:-

- (a) हमेशा अपनों के बीच रहना चाहिए।
- (b) मैं सबसे श्रेष्ठ कारीगर हूँ।
- (c) बहन तुम रो क्यों रही हो?
- (d) मैंने अपनों का साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है।

Q4. एक शब्द में उत्तर दें:-

- (a) जंगल में किन पक्षियों के घोंसले लटक रहे थे?
- (b) किसे अपनी कारीगरी पर अभिमान हो गया था?
- (c) अपनों का साथ और प्रोत्साहन पाकर किसे निखारा जा सकता है?
- (d) कौन उदास रहने लगी?
- (e) किसने बया से उसके रोने का कारण पूछा?
- (f) अंत में किसे अपनी गलती का अहसास हुआ ?

Q5. सोचें और बोलें:-

- (a) पेड़ पर किस पक्षी के घोंसले थे?
- (b) एक बया ने वहाँ से दूर जाने की बात क्यों सोची?
- (c) अंत में बया को किस बात का अहसास हो गया?

### EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON

PAGE NO.25:- Q3. लघु उत्तर लिखें:-

(i),(ii),(iii),(iv),(v)

PAGE NO.26:- Q4. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:-

PAGE NO.26. भाषा मंथन:-

Q2. दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से चुनकर लिखें:-